



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 12]

नई दिल्ली, जून 25—जुलाई 1, 2006, शनिवार/आषाढ़ 4—आषाढ़ 10, 1928

No. 12]

NEW DELHI, JUNE 25—JULY 1, 2006, SATURDAY/ASADHA 4—ASADHA 10, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 2006

का.नि.आ. 79.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रक्षा संपदा महानिदेशालय और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अंतर्गत आने वाले क्रमशः रक्षा संपदा कार्यालय, सिकंदराबाद और रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. 1(1)/2000-रक्षा (रा.भा.-I)]

जतिन्द्रबीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th June, 2006

S. R.O. 79.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages— (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Defence Estates Office, Secunderabad and Defence Institute of Psychological Research, Delhi under the Directorate General of Defence Estates and Defence Research and Development Organisation respectively, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

[No. 1 (1)/2000-D (OL-I)]

JATINDERBIR SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

का.नि.आ. 80.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में गुणता आश्वासन महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (वाहन)
गुआमनि काम्पलेक्स, मीनाबक्कम पूर्व,
चैन्ने-600114

[सं. 2 (1)/98-रक्षा (रा.भा.-2)]

रंजन चटर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 15th June, 2006

S. R.O. 80.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages— (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Directorate General of Quality Assurance, 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

Senior Quality Assurance Establishment (Vehicles)
DGQA Complex, Meenambakkam East,
Chennai-600114.

[No. 2 (1)/98-D (OL-II)]

RANJAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

का.नि.आ. 81.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में मानकीकरण निदेशालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिनके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, दिल्ली,
रक्षा मानक भवन,
डिफेंस कैपिंग ग्राउंड, बदरपुर,
नई दिल्ली-110044
2. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, देहरादून,
पी/57, आर टी आई के पास,
रायपुर, देहरादून-248008
3. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, जबलपुर,
भवन नं. आर डी/1,
डैनिंग रोड, साउथ सिविल लाइन्स,
जबलपुर-482001
4. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, कानपुर,
डी जी क्यू ए कॉम्पलेक्स, नेपियर रोड,
कानपुर कैंट-208004
5. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, पुणे,
गुआमनि (इंजि. उमस्कर) अहाता
औंध कैप, पुणे-411027

6. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, हैदराबाद,
डी एल आर एल कैम्पस,
चंद्रायनगुट्टा लाइन्स, हैदराबाद-500005
7. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, इच्छापुर,
एम-22, ओल्ड वर्कमेन लाइन्स, स्टेशन रोड,
डाकघर-इच्छापुर-नवाबगंज, जिला-24 परगना (एन),
पश्चिम बंगाल-743144
8. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
रक्षा मानकीकरण कक्ष, आवडी,
सी.वी.आर.डी.ई. कॉम्प्लेक्स,
पो.बा. नं. 7, सी.वी.आर.डी.ई. कैम्पस,
आवडी, पो.आ. चेन्नई-600054

[सं. 2 (1)/98/रक्षा (रा.भा.-2)]

रंजन चटर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 15th June, 2006

S. R.O. 81.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages— (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Offices of Directorate of Standardisation 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Government of India, Ministry of Defence,
Defence Standardisation Cell, Delhi,
Raksha Manak Bhavan,
Defence Camping Ground, Badarpur,
New Delhi-110044
2. Government of India, Ministry of Defence,
Defence Standardisation Cell, Dehradun,
P-57, Near RTI, Raipur,
Dehradun-248008
3. Government of India, Ministry of Defence,
Defence Standardisation Cell, Jabalpur,
Building No. RD/I, Denning Road,
South Civil Lines, Jabalpur-482001
4. Government of India, Ministry of Defence,
Defence Standardisation Cell, Kanpur,
DGQA Complex, Napier Road,
Kanpur Cantt-208004
5. Government of India, Ministry of Defence,
Defence Standardisation Cell, Pune,
CQA (EE) Complex, Aundh Camp,
Pune-411027

6. Government of India, Ministry of Defence
Defence Standardisation Cell, Hyderabad
DLRL Campus, Chandrayangutta Lines
Hyderabad-500005
7. Government of India, Ministry of Defence
Defence Standardisation Cell, Ichapur
M-22, Old Workmen Lines, Station Road
P.O. Ichapur-Nawabganj, Distt-24 Parganas (N),
West Bengal-743144
8. Government of India, Ministry of Defence
Defence Standardisation Cell, Avadi
CVRDE Complex, Post Box No. 7
CVRDE Campus, Avadi P.O.
Chennai-600054

[F. No. 2 (1)/98-D (OL-II)]

RANJAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2006

का. नि. आ. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना चिकित्सा कोर (सिविलियन) वर्ग 4 पद (भर्ती) नियम, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, सेना चिकित्सा कोर में वार्ड सहायिका के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना चिकित्सा कोर, वार्ड सहायिका (सिविलियन) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वार्ड सहायिका	2354* (2005)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', *कार्यभार के अराजपत्रित (अननुसचिवीय) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : —रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रॉन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1. आठवां स्तर उत्तीर्ण वांछनीय : सिविल अस्पताल के परिवार खंड में दाई के रूप में अनुभव या किसी सरकारी विभाग में दाई के व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

18384206-2

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

(11)

(12)

आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

रक्षा मंत्रालय के निम्नतर विरचना में नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्यरत व्यक्ति।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

- | | |
|---|----------|
| 1. नियुक्ति प्राधिकारी/एकक का प्रधान | —अध्यक्ष |
| 2. एकक का कंपनी कमांडर (ले. कर्नल/मेजर) | —सदस्य |
| 3. ले. कर्नल/मेजर (रक्षा सेवा के सिस्टर एकक में ले. कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी) | —सदस्य |

[फा सं. 07788/डब्ल्यू एस/डीजीएमएस-3 (बी)/156/आरआर/रक्षा (नि.)/06]

बी. ए. चावड़ा, अव्वर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2006

S.R.O. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Army Medical Corps (Civilian) Class IV Posts (Recruitment Rules) 1968, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ward Sahayika in the Army Medical Corps, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Defence, the Army Medical Corps Ward Sahayika (Civilian) Group 'D' Post Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—(1) The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and Other and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ward Sahayika	2354*(2005) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)

Between 18 and 25 years (relaxable) for Government servants up to the age of 40 years in the case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Essential
Pass in 8th Standard Desirable
Experience as a Dai in a family Wing of Civil Hospital or
Three years experience in the trade of Dai in a Government Department

Not applicable

Two years.

Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Note 2 :—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

183842706-3

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by absorption or by deputation and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or absorption, the grades from which promotion on deputation or absorption to be made
11	12
By absorption failing which by direct recruitment	Absorption Persons serving in analogous posts on regular basis in lower formation of Ministry of Defence.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (For confirmation) consisting of :—	Not applicable
1. Appointing Authority/Head of the Unit	—Chairman
2. Company Commander (Lt. Col./Major) of Unit	—Member
3. An Officer of the rank of Lt. Col./Major from a sister Unit of the Defence Service	—Member

[F. No. 07788/WS/DGMS-3(B)/156/RRD(A)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2006

का.नि.आ. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय नौसेना (ज्येष्ठ निजी सचिव) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय नौसेना (ज्येष्ठ निजी सचिव) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय नौसेना (ज्येष्ठ निजी सचिव) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में,—
(1) स्तंभ 6 में, शीर्षक "सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं",
(2) स्तंभ 6 में, शीर्षक "सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा"।

[फा. सं. सीपी (जी)/2623/आरआर/286/डी. (नियुक्ति)/06]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, सं. का.नि.आ. 23 तारीख 9 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 12th June, 2006

S.R.O. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Navy (Senior Private Secretary) Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Navy (Senior Private Secretary) Group 'B' Gazetted Recruitment (Amendment) Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Navy (Senior Private Secretary) Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2005, in the Schedule,—
- (i) in column 6, for the heading "Age limit for Direct Recruits", the following heading shall be substituted, namely :—
- "Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972",**
- (ii) in column 7, for the heading "Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972" the following heading shall be substituted, namely :—
- "Age limit for Direct Recruits".**

[F. No. CP(G)2623/RR/286/D(Apptts.)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published *vide* SRO 23 dated 09 March, 2005.

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

का.नि.आ. 84.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान द्वारा ले. कर्नल राजीव नागपाल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बक्लोह में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/23/बक्लोह/सी/डीई/2001/1547/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 2006

S.R.O. 84.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Bakloh by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of resignation of Lt. Col. Rajiv Nagpal.

[F. No. 19/23/Bakloh/C/DE/2001/1547/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

का.नि.आ. 85.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बक्लोह ने उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल राजेन्द्र वर्मा को छावनी बोर्ड, बक्लोह का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल राजीव नागपाल के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/23/बक्लोह/सी/डीई/2001/1547/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 2006

S.R.O. 85.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Rajinder Verma has been nominated as a member of the Cantonment Board, Bakloh by the Station Commander, Bakloh in exercise of the powers conferred under Sub-section (3) of Section 14 of that Act vice Lt. Col. Rajiv Nagpal whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/23/Bakloh/C/DE/2001/1547/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.नि.आ. 86.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा ले. कर्नल जसमिंदरसिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, अहमदनगर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/14/अहमदनगर/सी/डीई/2001/1103/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 2006

S.R.O. 86.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Ahmednagar by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of resignation of Lt. Col. Jasmindersingh.

[F. No. 19/14/Ahmednagar/C/DE/2001/1103/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का. नि. आ. 87.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, अहमदनगर ने उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल ए. एस. कपूर को छावनी बोर्ड, अहमदनगर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल जसमिंदरसिंह के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/14/अहमदनगर/सी/डीई/2001/1103/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 2006

S.R.O. 87.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. A. S. Kapoor has been nominated as a member of the Cantonment Board, Ahmednagar by the Station Commander, Ahmednagar in exercise of the powers conferred under Sub-section (3) of Section 14 of that Act vice Lt. Col. Jasmindersingh whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/14/Ahmednagar/C/DE/2001/1103/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 जून, 2006

का. नि. आ. 88.—भारत सरकार के दिनांक 01 फरवरी, 2006 के राजपत्र में प्रकाशित संख्या का. नि. आ. 28 दिनांक 12-18 फरवरी, 2006 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

1. अनुसूची के कालम 8 टिप्पण 2 के अधीन
के लिए — सेवा लोक संघ आयोग
पढ़ें — संघ लोक सेवा आयोग

[मिसिल संख्या 35273/आर आर/ए एन ई/डी जी ए एफ एम एस/डी जी-3 डी/318/आर आर/रक्षा (नि) 06]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th June, 2006

S.R.O. 88.—The following amendment is made to S.R.O. 28 dated 01 Feb., 2006 published in the Gazette Notification dated 18 Feb., 2006:

1. Under Column 3 in Schedule—
For — Group 'A' Non-Gazetted, Non-Ministerial
Read — Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial

[F. No 35273/RR/Ane/DGAFMS/DG-3D/318/RR/D(A)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.